



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2003 (आषाढ़ 14, 1925)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2003 (ASADHA 14, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices  
of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/02353/3/6/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री मनोज कुमार टी.पी. को 14.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में सीधी भर्ती द्वारा लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एस. एस. गुलिया  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/02380/3/63/2002-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री सुरेन्द्र कुमार कांतिवाल को 08.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में सीधी भर्ती द्वारा लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/2371/3/17/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री पी. वी. रामकृष्ण राव, सहायक लोक अभियोजक, आन्ध्र प्रदेश सरकार को 02.06.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. एस. गुलिया  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

दिनांक 17 जून 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/02283/3/6/97-प्रशा.V--श्री डी. पी. दास, आईआरएस (आईसी एंड सीईएस : 1985), पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर, 25.03.2003 अपराह्न से विस

और कम्पनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली करे वापस सौंप दी गई हैं।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

- वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 17 जून 2003

गृह मंत्रालय  
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जून 2003

सं. ओ.दो.-1347/77-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 1.2.2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री रिजनाल्ड वेसली, कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए. नं.-1549) के रि. पु. बल को उनके पद से दिनांक 01.05.2003 (पूर्वाह) से कार्य-मुक्त किया गया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 1.05.2003 (पूर्वाह) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 17 जून 2003

सं. ओ.दो.-1347/77-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 23.12.2002 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सी. पौगंडअन्नि, सहायक कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए.-4761), 110 बटालियन, के. रि. पु. बल ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 1.6.2003 को पूर्वाह में त्याग दिया है। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.06.2003 (पूर्वाह) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत  
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक-I)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2003

सं. ई-16015(2)/1/2002/कार्मिक-I/24--राष्ट्रपति, श्री ए. एस. आर. रेड्डी, वरिष्ठ कमान्डेंट को पदोन्नति पर के.ओ.सुब में उपमहानिरीक्षक के पद पर 16,400-450-20,000/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे के.ओ.सुब, इकाई एन.एल.सी. न्यूवैली में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 23 अप्रैल 2003 को पूर्वाह से उपमहानिरीक्षक के पद का कार्यभार संभाला।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. 03-एस/एस-4/3153--श्री एम. जे. गांगुर्डे, सुरक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के दिनांक 06.05.2003 के आवेदन के सन्दर्भ में, महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48-A(3-A)(a) और (b) के अनुसार, पेंशन के एक हिस्से का संराशीकरण का भुगतान उनके आवेदन की तारीख से तीन महीने की सूचना अवधि के समाप्ति पर होगा, इन शर्तों के आधार पर उनकी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के आवेदन को (सूचना अवधि में छूट देते हुए) स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, श्री एम. के. गांगुर्डे, सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.06.2003 (पूर्वाह) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दे. मो. शर्मा  
उपमहाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 11 जून 2003

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-12--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व श्री दीपक कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 05.06.2003 (पूर्वाह) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 24 जून 2003

सं. 153-जी.ई.-1/176-98/भाग-II--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. एन सुन्दर राजन अधिवार्षिकी दिनांक 31.5.2003 (अपराह)
2. ए. आर. शक्यवार -यथोक्त- 31.5.2003 (अपराह)
3. एम. एल. साधु -यथोक्त- 31.5.2003 (अपराह)

एनी. जी. मैथ्यू  
सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

महालेखाकार का कार्यालय, झारखंड  
(स्थानीय लेखा शाखा)

राँची, दिनांक 12 मई 2003

सं. स्था.ले.प्रशा.-I-स्था.-I-प्रोन्नति(ले.प.अ.)/4/2003-2004--महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-II, बिहार एवं झारखंड, राँची ने अपने कार्यालय के स्थानीय लेखा शाखा के श्री सत्यदेव सिंह को दिनांक 01.04.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानीय लेखा शाखा में ही लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रुपया 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है।

मनीश कुमार  
स्थानीय लेखा परीक्षक  
बिहार एवं झारखंड, राँची

महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2003

महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने श्री सयद अब्दुल रशीद सहायक लेखा अधिकारी को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर लेखा अधिकारी के रूप में 9.6.2003 अपराह्न के प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

दो. राधाकृष्णमूर्ति  
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 11 जून 2003

सं. का.स्था./ह व रो/ई 4 पें/38--भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री एम. आर. गोपाल कृष्ण पिल्लै	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2003 (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती सी. वी. सूसन्ना	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	31.05.2003 (अधिवर्षिता)

ह./- अपठनीय  
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 16 जून 2003

सं. प्रशासन-V/9-86/V--महालेखाकार (ले. व ह.), इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में, उनके नाम के सामने दिखाए गए तारीख से, सहायक लेखा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. श्री कुञ्जहम्मद के. टी. | 02.06.2003 अपराह्न |
| 2. श्री जोणी जोसफ          | 02.06.2003 अपराह्न |

अजायब सिंह  
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग  
(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 13 जून 2003

सं. प्रशा.-I/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	अरुण सेदवाल	03.05.1943 31.05.2003	01.06.2003
2.	सी. षडमुंगसुंदरम	16.05.1943 31.05.2003	01.06.2003
3.	एस. मलयप्पन	15.05.1943 31.05.2003	01.06.2003
4.	एस. सी. शर्मा	02.05.1943 31.05.2003	01.06.2003
5.	कृपाल सिंह	01.06.1943 31.05.2003	01.06.2003
6.	ए. एस. नागराजा सरमा	01.06.1943 31.05.2003	01.06.2003
7.	जे. पी. मंगलिक	13.05.1943 31.05.2003	01.06.2003

कुप्पास्वामी  
रक्षा लेखा सहा. महानियंत्रक (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2003

सं. ए-19018/402/79-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री दिलीप कुमार दास, उप-निदेशक (धातुकर्म) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, कोलकाता दिनांक 31.5.2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय  
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 13 मई 2003

सं. 2098/बी/ए-19012/(1-ए.पी.ए.)/99/19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री ए. पी. आनन्द, द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के पद से दिए गए त्यागपत्र को 23.12.2002 (पूर्वाह्न) से स्वीकृत करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 12 जून 2003

सं. 2082/बी/ए-19012/(4-सी.सी.एम.)/2002/19बी-11-केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 48ए के अन्तर्गत श्री चंडी चरण मांझी, वेधक श्रेणी-II, कोयला स्कंध, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता से 01.03.2003 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 13 जून 2003

सं. 2110/बी/ए-32013/(ए.ओ. श्रेणी-I)/2002/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II, को प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी-I के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
01.	श्री महाबलौ	09.05.2003 (अपराह्न)
02.	श्री पति राम	09.05.2003 (अपराह्न)
03.	श्री के. मुरजानी	09.05.2003 (अपराह्न)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 2148/बी/ए-19011/(1-जी.डी.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्रीमती गार्गी भट्टाचार्य (दास), सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर इसी विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में, आगामी आदेशों तक 25.4.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 2169/बी/ए-19011/(1-एस.एस.)/01/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री शुशांत सारंगी को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के नियमानुसार न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 16.4.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 20 जून 2003

सं. 2230/बी/ए-32013/(ए.ओ. श्रेणी-II)/2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधीक्षकों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्रशासनिक अधिकारी, श्रेणी-II के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
01.	श्रीमती पारूल बाला सिकंदर	30.05.2003 (पूर्वाह्न)
02.	श्री सलिल चट्टोपाध्याय	19.05.2003 (पूर्वाह्न)
03.	श्री बिक्रमा साह	20.05.2003 (पूर्वाह्न)
04.	श्री ए. सी. जार्ज कुट्टी	20.05.2003 (पूर्वाह्न)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते उपमहानिदेशक (कार्मिक)

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 17 जून 2003

सं. 19025/7/84-प्र.1--विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
उप-कार्यालय, गुन्डूर के श्री बी. पुन्नैया, विपणन अधिकारी (ग्रुप-1)  
दिनांक 30.5.2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो  
गए हैं।

डी. के. बजाज  
निदेशक (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  
(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-85, दिनांक 18 जून 2003

सं. पीडी/12(2)/2003-आर-III/843--नियंत्रक, भाभा परमाणु  
अनुसंधान केन्द्र, श्री के. वेंकट सुब्रमण्यन, सहायक, भा. प. अ. केन्द्र,  
को दिनांक 07.05.2003 (पूर्वाह) से 06.06.2003 (अपराह) तक की  
अवधि हेतु इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक  
अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) नियुक्त  
करते हैं।

के. सी. दिबाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 11 जून 2003

सं. 6(2356)/2003-प्रशा./642--राष्ट्रपति, सुश्री अर्चना अरोड़ा,  
आईएएस (एजीएमयू : 83) को परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय,  
नई दिल्ली में दिनांक 02 जून, 2003 के पूर्वाह से दिनांक 11 जून,  
2006 तक या भावी आदेश होने तक, जो भी पहले हो रु. 18,400-  
500-22,400/- के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त  
करते हैं।

एम. वेणुगोपालन  
स्टाफ संपर्क अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 19 जून 2003

सं. भापाबो/भ/1/2(2)/2003/507--भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय  
कार्यालय) के मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) की  
आशुलिपिक ग्रेड-1 श्रीमती वासुदेवन् कल्पगलक्ष्मी को दिनांक 1 मई,

2003 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक रु.  
6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में निजी सचिव  
(एनएस) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एम. आर. शेड्टी  
प्रशासन अधिकारी

मुम्बई-400094, दिनांक 20 जून 2003

सं. भापाबो/भ/26(2)/2003/508--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय  
कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (मणुगूरू), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई  
के ग्रुप "ए" के निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे उल्लिखित तिथि  
से प्रभावी रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	इकाई	ग्रेड जिसमें मूल रूप से नियुक्त से नियुक्त किए गए	मूल रूप से नियुक्त की तिथि
1.	श्री नीरज कुमार	वैज्ञा अधिकारी/ सी	भापाबो (के.का.)	वैज्ञा. अधिकारी/ सी	01.10.2002
2.	डॉ. (श्रीमती) टी. शांताश्री	वैज्ञा. अधिकारी/ सी	भापासं (मणुगूरू)	वैज्ञा. अधिकारी/ सी	01.04.2003

बी. डी. मिश्र  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 12 जून 2003

सं. क्रभनि/जे-17/स्था./2137--सेवा निवर्तन की आयु प्राप्त कर  
लेने के फलस्वरूप श्री जॉन थॉमस, सहायक क्रय अधिकारी, केक्रेण,  
क्रभनि, मुम्बई दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 को अपराह में सरकारी सेवा  
से निवृत्त हो गए। तदनुसार, उन्हें उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया।

आर. सुन्दरराजन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 मई 2003

सं. ए-32016/4/96-स्था.-I--महानिदेशक, नागर विमानन, श्री  
काशीराम, विमान अनुरक्षण इंजीनियर (शीट मेटल शॉप) को अनुसंधान  
एवं विकास निदेशालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर फोरमैन (शीट मेटल

शाप) के पद पर, 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 28.05.2003 से छः माह की अवधि या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत करते हैं।

रामधारी  
उपनिदेशक प्रशासन  
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जून 2003

सं. ए-32013/3/2001-स्था.-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री ए. के. रे, निदेशक उड़नयोग्यता और श्री एस. एस. नट, निदेशक उड़नयोग्यता को उनके पदोन्नति पर, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में 16,400-450-20,000/- रु. के वेतनमान में, दिनांक 20.06.2003 (पूर्वाह) और 16.06.2003 (पूर्वाह) से तथा अगले आदेशों तक उप महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया  
उपनिदेशक, प्रशासन

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैना कैसेट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जून 2003

सं. 560(3)/55/105655/2534--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स जैना कैसेट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम एफ सी एल क्रेडिट एण्ड पोर्टफोलिओ लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जून 2003

सं. 560(3)/55/59122/2609--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स एम एफ सी एल क्रेडिट एण्ड पोर्टफोलिओ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोबल फूड्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2003

सं. 560(3)/55/026581/2881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स नोबल फूड्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होप मेडिकेयर सेन्टर लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जून 2003

सं. 560(3)/55/25778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स होप मेडिकेयर सेन्टर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिनेश चन्द  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशावरी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 18 जून 2003

सं. एल.सी./560(3)/1284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आशावरी

ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिल नाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टिका राम एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 18 जून 2003

सं. एल.सी./560(3)/226--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टिका राम एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भगवान स्टील एण्ड एलोज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 18 जून 2003

सं. एल.सी./560(3)/12766--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स भगवान स्टील एण्ड एलोज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ई. एफ. एल. फाइनैन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 19 जून 2003

सं. 18-36900/पी.सी. IV/560/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तिथि से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ई. एफ. एल. फाइनैन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682011, दिनांक 20 जून 2003

सं. 560(3)/4280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन महीने के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1.	3146	मैसर्स मुन्डूर करीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	5005	मैसर्स श्री राम फ्लोरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	6176	मैसर्स अडराक अडवरटैसिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	7336	मैसर्स मंगाली बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	7922	मैसर्स रॉयलस्टार सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	8502	मैसर्स सोजक्स प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड
7.	9462	मैसर्स कैश वील्स हायर परचेज एण्ड वीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	10084	मैसर्स राजीव शेयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड।

हेनरी रिच्चार्ड  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेमिनी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-गोवा, दिनांक 16 जून 2003

सं. 24-0-1827/909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा सूचना दी

जाती है कि मैसर्स जेमिनी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. अहमद कुन्जु  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमण एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्लेसिडो होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-गोवा, दिनांक 16 जून 2003

सं. 24-0-2061/912--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लेसिडो होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम

आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. अहमद कुन्जु  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमण एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्बा गोवा टूरिस्ट प्रमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-गोवा, दिनांक 16 जून 2003

सं. 24-0-2306/915--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्बा गोवा टूरिस्ट प्रमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. अहमद कुन्जु  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमण एवं दीव



## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 16th June 2003

No. DPAD5/2002/02353/3/6/2003-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar T.P. as Public Prosecutor in C.B.I. as a direct recruit w.e.f. 14.5.2003 (F.N.) on the recommendations of UPSC until further orders.

He will be on probation for a period of one year.

S. S. GULIA  
Administrative Officer (Estt.)

No. DPAD5/2003/237/3/17/2003-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri P.V. Ramakrishna Rao, Asstt. Public Prosecutor, Govt. of Andhra Pradesh as Public Prosecutor in the CBI on deputation basis on Standard Terms of Deputation, with effect from the forenoon of 2.6.2003 and until further orders.

S. S. GULIA  
Administrative Officer (Estt.)

New Delhi-110003, the 16th June 2003

No. DPAD5/2002/2380/3/63/2002-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Surender Kumar Kaatiwal as Public Prosecutor in C.B.I. as a direct recruit w.e.f. 8.5.2003 (F.N.) on the recommendations of UPSC until further orders.

He will be on probation for a period of one year.

S. D. BAJAL  
Administrative Officer (Estt.)

The 17th June 2003

No. DPAD5/2003/02283/3/6/97-AD.V.—Services of Shri D. P. Dash, IRS (IC&CES: 1985) Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation have been placed back at the disposal of Ministry of Finance & Company Affairs, Department of Revenue, New Delhi with effect from the afternoon of 25.03.2003 on repatriation.

S. D. BAJAL  
Administrative Officer (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-3, the 13th June 2003

No. O.II/1347/77-Pers-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 01.02.2003 for voluntary retirement from Government service Shri Reginald Wesley, Commandant (IRLA-1549), CRPF has been relieved from his post on 01.05.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from strength of the Force with effect from 01.05.2003 (FN).

MAN SINGH RAWAT  
Addl. DIGP (Pers-I)

The 17th June 2003

No. O.II.4761/98-Pers-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 23.12.02 for voluntary retirement from Government service, Shri C. Pongaiannan, Asstt. Commandant (IRLA 4761) of 119 Bn, CRPF has been relieved from his post on 01.06.03 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force w.e.f. 01.06.2003 (FN).

MAN SINGH RAWAT  
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL  
(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-3, the 17th June 2003

No. E-16015/(2)/I/2002/Pers. I/24.—The President is pleased to appoint Shri A.S.R. Reddy, Senior Commandant to the rank of Deputy Inspector General in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 16400-450-20000/-. He is posted at CISF Unit NLC Neyveli, where he assumed the charge of Deputy Inspector General in the forenoon of 23 April 2003.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)  
CURRENCY NOTE PRESS

Nashtik Road, the 17th June 2003

No. 03 S/S-4/3153.—With reference to his application dtd 6.5.2003, The General Manager, India Security Press has accepted request of voluntary retirement (with relaxation to the notice period) of Shri M.K. Gangurde, Security Officer, (Group "B", Gazetted) from 17.06.2003 (F/Noon) under provision of Rule 48 (1-A) (a) & (b) of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 i.e. commutation of a part of pension will be paid on expiry of notice period of 3 months from the date of his application.

Accordingly, Shri M.K. Gangurde, Security Officer has retired voluntarily from Govt. Service from 17.06.2003 (F/Noon).

D. M. SHARMA  
Dy. General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110002, the 16th June 2003

No. Adm. I/O.O. No. 12.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Sh. Deepak Kumar Gupta, Assistant Audit Officer of this office to

officiate as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from 05.06.2003 (F/N) until further orders:

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR  
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 24th June 2003

No. 2712 GE-I/176-98 (VII-II).—The following IA&AS officers have retired on superannuation from Government service from the date shown against their names

1. Sh. N. Sunder Rajan Retired on superannuation with effect from 31.05.2003 (AN)
2. Sh. A R. Shakyawar -do-
3. Sh. M L Sadhu -do-

ANNIE G. MATHEW  
Asstt. Comptroller and Auditor General (P)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT,  
JHARKHAND (LOCAL AUDIT WING)

Ranchi, the 12th May 2003

No. I. A. Admn. I-Estt. I-Promo AO 4 of 2003-04.—The Accountant General (Audit): II Bihar & Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote Sri Satyadeo Singh of Local Audit Wing to officiate as Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 with effect from 01.04.2003 (F/N).

MANISH KUMAR  
Examiner of Local Accounts  
Bihar & Jharkhand

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-4, the June 2003

The Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the Scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the date shown against his name.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Sri Syed Abdul Rasheed	09.06.2003 AN

The promotion order is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the

writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 11th June 2003

No. O.E./E&C/ElVP/38.—The following Officials of IA&AD retired from service.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Sri. M.R. Gopalakrishna Pillai	Sr. Accounts Officer	31.05.2003 (Superannuation)
2.	Smt. C.V. Seshanna	Sr. Accounts Officer, Branch Office, Thrissur	31.05.2003 (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

The 16th June 2003

No. Admn. V/9-86/V—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Section Officers of this office as Assistant Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 with effect from the dates noted against each.

1. Shri Kunhammed K.T. 02.06.03 AN
2. Shri Johny Joseph 02.06.03 AN

AJAIB SINGH  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF  
DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 13th June 2003

No. AN-1/1467/5/1/(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below. Their names have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name S/Shri	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the pension Establishment
1	2	3	4
1.	S/Shri Arun Sedwal	03.05.1943 31.05.2003	01.06.2003

1	2	3	4
2.	C Shanmugasundaram	<u>16.05.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003
3.	S. Malayappan	<u>15.05.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003
4.	S.C. Sharma	<u>02.05.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003
5.	Kripal Singh	<u>01.06.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003
6.	A.S. Nagaraja Sarma	<u>01.06.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003
7.	J.P. Manglik	<u>13.05.1943</u> 31.05.2003	01.06.2003

**KUPPASWAMY**  
Asstt. Contrller General of Defence  
Accounts (Administration)

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES**  
**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER**  
**(SMALL SCALE INDUSTRIES)**

New Delhi, the 10th June 2003

No. A-19018/402/79-Admn.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri Dilip Kumar Das, Deputy Director (Metallurgy), Regional Testing Centre, Kolkata under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 31.05.2003.

**S.V.N. PILLAI**  
Deputy Director (Admn.)

**KHAN MANTRALAYA**  
**(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)**

Kolkata-16, the 13th May 2003

No.2098/B/A-19012/(1-APA)/99-19A—The Director General, Geological Survey of India is pleased to accept resignation, tendered by Shri A. P. Anand, from the post of Asstt. Geologist, Gr. I in Geological Survey of India, w.e.f. 23.12.2002(FN).

**S.K. SINHA**  
Sr. Administrative Officer  
for Director General, GSI

The 12th June 2003

No. 2082/B/19012(4-CCM)/2002/19B—Sri Chandri Charan Maji, Driller, Grade II retired voluntarily with effect from 01.03.03 (FN) under Rule 48A of CCS (Pension) Rules, from Coal Wing, GSI, Kolkata.

**S.K. SINHA**  
Sr. Administrative Officer  
for Director General, GSI

The 13th June 2003

No. 2110/B/A-32013 (A.O.Gr.I)/2002/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the President is pleased to appoint the following Administrative Officers, Grade II, Geological Survey of India to the post of Administrative Officers, Grade I on promotion on regular basis on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Department with effect from the date shown against each, until further orders: —

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri Mahabali	09.05.2003 (A.N.)
2.	Shri Pati Ram	09.05.2003 (A.N.)
3.	Shri K. Moorjani	09.05.2003 (A.N.)

**S.K. SINHA**  
Senior Administrative Officer  
for Director General, GSI

No. 2148/B/A19011(I-GD)/03/19A—The President is pleased to appoint Mrs Gargi Bhattacharya (Das), Asstt. Geologist Grade I, Geological Survey of India to the post of Geologist (Jr.) in the same Department in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 25.4.2003 until further orders.

**S.K. SINHA**  
Senior Administrative Officer  
for Director General, GSI

No. 2161/B/A-19011(I-SS)/01/19A—The President is pleased to appoint Shri Shushanta Sarangi to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay according to rule in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16.4.2003 until further orders.

**S.K. SINHA**  
Senior Administrative Officer  
for Director General, GSI

The 20th June 2003

No. 2230/B/A-32013 (A.O.Gr.II)/2003/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Superintendents, Geological Survey of India to the post of Administrative Officer Grade II on promotion in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating

capacity with effect from the date shown against each, until further orders:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of joining
1.	Smt. Parul Bala Sikdar	30.05.2003 (FN)
2.	Shri Salil Chattopadhyay	19.05.2003 (FN)
3.	Shri Bikrama Sah	20.05.2003 (FN)
4.	Shri A.C. George Kutty	20.05.2003 (FN)

S.K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Dy. Director General. (P) GSI

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURE COOPERATION DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

NH-IV, Faridabad, the 17th June 2003

No. 19025/7/84 A.I.—Shri B. Punnaiah, Marketing Officer (Group-I), Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Guntur has superannuated from Govt. service with effect from 30.05.2003 (AN).

D.K. BAZZAZ  
Director (Administration)

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(Personnel Division)

Mumbai-400085, the 18th June 2003

Ref: PD/12(2)/2003-R-III/843.—Contoller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K Venkat Subramaniam, Assistant, BARC as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 07.05.2003 (FN) to 06.06.2003 (AN).

K. C. DIVAKARAN  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai 400001, the 11th June 2003

No: 6(2356)/2003/Adm/642.—The President is pleased to appoint Ms Archana Arora, IAS (AGMU :83) as Joint Secretary in the Department of Atomic Energy Branch Secretariat, New Delhi in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 with effect from the forenoon of June 2, 2003 for a period upto 11th June, 2006 or until further orders, whichever is earlier.

M. VENUGOPALAN  
Staff Relations Officer

#### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 19th June 2003

Ref: HWB/R/1/2(2)/2003/507.—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Smt. Vasudevan Kalpagalakshmi, Stenographer Gr. I of Heavy Water Board (Central Office) to officiate as Private Secretary (NS) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in Heavy Water Board (Central Office), Mumbai with effect from the forenoon of May 01, 2003 until further orders.

M. R. SHETTY  
Administrative Officer

Mumbai-400094, the 20th June 2003

Ref: HWB/R/26(2)/2003/508.—The President is pleased to appoint the following Group 'A' Officers of Heavy Water Board (CO)/Heavy Water Plants (Manuguru), Department of Atomic Energy, Mumbai in a substantive Capacity with effect from the date shown below:

Sr. No.	Name of the Officers	Present Grade	Unit	Grade in which appointed substantively	Date of Substantive appointment
1.	Sh. Niraj Kumar	SO/C	HWB (CO)	SO/C	01.10.02
2.	Dr. (Smt) T. Santasree -do-	Manuguru	SO/C		01.04.03

B.D. MISHRA  
Chief Administrative Officer

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 12th June 2003

Ref: DPS/J-17/Estt./2137.—Consequent on his superannuation, Shri John Thomas, Assistant Purchase Officer of this Directorate has been relieved from Government service with effect from the afternoon of December 31, 2002.

R. SUNDRARAJAN  
Administrative Officer-III

#### DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 28th May 2003

No. A.32016/4/96-E.I.—The Director General of Civil Aviation is pleased to promote Shri Kashi Ram, Aircraft Maintenance Engineer (Sheet Metal Shop) to the post of Foreman (Sheet Metal Shop) in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 in the Research and Development Directorate purely on ad-hoc basis for a period of six months with

effect from 28.05.2003 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

RAM DHARI  
Dy. Director of Administration  
For Director General of Civil Aviation

New Delhi-110003, the 23rd June 2003

No. A-32013/3/2001-E.II.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Ray, Director of Airworthiness and Shri S.S. Nat, Director of Airworthiness of the office of the Director General of Civil Aviation, as Deputy Director General in the Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi, on regular basis, in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000, with effect from 20.06.2003 (F.N.) and 16.06.2003 (F.N.) respectively until further orders.

On promotion to the post of Deputy Director General, Shri A.K. Ray and Shri S.S. Nat are posted in the Office of the Director General of Civil Aviation (Headquarters), New Delhi.

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Zena Cassettes Company Private Ltd.

New Delhi-110003, the 4th June 2003

Notice u/s. 560 (3)/55/105655/2534.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof the name of the M/s Zena Cassettes Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
HFCL Credit & Portfolio Limited.

New Delhi-110003, the 6th June 2003

Notice u/s. 560 (3)/55/59122/2609.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof the name of the M/s HFCL Credit & Portfolio Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Noble Foods Limited.

New Delhi-110003, the 17th June 2003

Notice u/s. 560 (3)/55/026581/2881.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Noble Foods Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Hope Medicare Centre Limited.

New Delhi-110003, the 4th June 2003

Notice u/s. 560 (3)/55/25778/2543.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof the name of the M/s Hope Medicare Centre Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DINESH CHAND  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Ashawari Oil Mill Private Limited.

Kanpur-208001, the 18th June 2003

No. 560 (3)/LC/12811/7136.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of Three months from the date hereof the name of the M/s Ashawari Oil Mill Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Tika Ram and Sons Private Limited

Kanpur-208001, the 18th June 2003

No. 560 (3)/LC/226/7138.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of Three months from the date hereof the name of the M/s Tika Ram & Sons Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Bhagwan Steel & Alloys Private Limited.

Kanpur-208001, the 18th June 2003

No. 560 (3)/LC/12766/7140.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Bhagwan Steel & Alloys Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Utranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s EFL  
Financial Services Private Limited.

Chennai-600006, the 19th June 2003

No. DN/35900/S. 560/PC.IV/2003.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s EFL Financial Services Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnada

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following companies.

Cochin-682011, the 20th June 2003

No. 560 (3)/4280.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of Three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved:—

Sl.	Reg.	Company Name
1	2	3
1.	3146	M/s Mundur Kuries & Loans Pvt Ltd.
2.	5005	M/s Sree Ram Floorings Pvt. Ltd.
3.	6176	M/s Adrace Advertising Pvt. Ltd.
4.	7336	M/s Magali Biotech Pvt. Ltd.

1	2	3
5.	7922	M/s Royal Star Securities Pvt. Ltd.
6.	8502	M/s Sojex Plywood Company Pvt. Ltd.
7.	9462	M/s Cash Wheels Hire Purchase and Leasing Pvt. Ltd.
8.	10084	M/s Rajiv Shares and Stocks Pvt. Ltd.

HENRY RICHARD  
Registrar of Companies,  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Gemini Investments Private Limited.

Panaji, the 16th June 2003

No. 24-01827/G/560 (5)/909.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Gemini Investments Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU  
Registrar of Companies  
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s  
Placido Hotels Private Limited.

Panaji, the 16th June 2003

No. 24-02061/u/s/560/912.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Placido Hotels Private Limited, has this day been struck off the Register and that the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU  
Registrar of Companies  
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Alba  
Goa Tourist Promotions Private Limited.

Panaji, the 16th June 2003

No. 24-02306/u/s/560 (5)/915.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Alba Goa Tourist Promotions Private Limited, has this day been struck off the Register and that the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU  
Registrar of Companies  
Goa, Daman & Diu